



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 519]
No. 519]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 21, 1981/कार्तिक 30, 1903
NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 21, 1981/KARTIKA 30, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1981

अधिकार

कां० प्रा० 323 (अ) :—कम्पनी प्रत्यक्ष कर बोर्ड कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी (लाभ) अतिकर नियम, 1964 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी (लाभ) अतिकर (तोसरा संशोधन) नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कम्पनी (लाभ) अतिकर नियम, 1964 के परिशिष्ट में प्रारम्भ सं० 1 में, भाग IV के पश्चात् निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“भाग V—करों का विवरण

प्रभाय रकम पर कर

(प्रभाय रकम पर संवेय कर की संगणना वसित करने वाला विवरण संलग्न करें)

अग्रिम अतिकर

(वास्तव संलग्न करें)

संदाय की तारीख

रकम

भाग VI—प्रभाय लाभों या अग्रिम अतिकर के संदाय की विवरण देने में हुए व्यक्तियों से संबंधित विवरण

1. यदि कानून द्वारा अपेक्षित समय सीमा के भीतर, प्रभाय लाभों की विवरणी देने में विलम्ब हो गया हो तो कृपया यह उपदर्शित करें कि क्या समय के निस्तारण के लिए कोई आवेदन पत्र दायर किया गया है

* हा/नहीं

2. यदि हा, तो कृपया आवेदन की तारीख और रसीद संख्या लिखें।

3. यदि प्रभाय लाभों या अग्रिम अतिकर के संदाय की विवरणी देने में व्यतिक्रम हुआ है तो उसका कारण पृथक विवरण में देकर उसे विवरणी के साथ संलग्न करें”।

* जो लागू न हो काट दीजिए।

[सं० 1325 कां० सं० 143(5)/81-डी पी एन]

एस० एन० बोर्ड, निदेशक
केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES NOTIFICATION

New Delhi, the 21st, November, 1981

SURTAX

S.O. 823(E).—In exercise of the powers conferred by section 25 of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Companies (Profits) Surtax Rules, 1964, namely :—

1. (1) These rules may be called Companies (Profits) Surtax (Third Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Appendix to the Companies (Profits) Sur-tax Rules, 1964 in Form No. 1, after Part IV, the following parts shall be inserted, namely :—

***Part V—Statement of Taxes**

Tax on Chargeable Amount

(Attach a statement showing computation of tax payable on chargeable amount).

ADVANCE SURTAX

(Attach challans)

Date of payment

Amount

Rs.

Part VI—Statement regarding defaults in furnishing Return of Chargeable Profits or payment of Advance Surtax

1. If there has been delay in furnishing the return of chargeable profits within the statutory time limit, please indicate whether any application for extension of time has been filed.

*Yes/No.

2. If yes, please state the date of application and receipt number.

3. If there has been default in furnishing the return of chargeable profits or in payment of advance surtax, the reasons therefor should be given in a separate statement to be attached with the return.

*Strike out whichever is not applicable.

1325 F. No. 143(5)[81-TPL]

S. N. SHENDE, Director.
tral Board of Direct Taxes.